

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 19th January, 2000

NOTIFICATION

S. No. It is notified for general information that enterprises/industrial undertakings, listed at para (3) below have been approved by the Central Government for the purpose of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002.

2. The approval is subject to the condition that –

- (i) the enterprise/industrial undertaking will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;
- (ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/industrial undertaking:
 - (a) ceases to carry on infrastructure facility; or
 - (b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or
 - (c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprises/industrial undertakings approved are –


i) 116 MW Combined Cycle Cogeneration Power Plant at Haldia, West Bengal of M/s IIPCL Cogeneration Limited, 3B Shakespeare Sarani, Calcutta-700071. (F. No. 205/143/99 – ITA-II)

ii) 3X20 MW Rangit Hydro Electric Project, Sikkim and 3X130 MW Dulhasti Hydro Electric Project, J&K of M/s National Hydro Electric Power Corporation Ltd., NIIPC office complex, Sector-33, Faridabad-121003. (F. No. 205/49/98 – ITA-II)

iii) Development, construction, commissioning, operation and maintenance of 30 MLD Borai Industrial Growth Centre Water Supply Project on B.O.O.T. basis by M/s Radius Water Ltd., 57-58, Vardhman Nagar, Great Eastern Road, Rajnandgaon-491441, Madhya Pradesh, under the agreement dated 5.10.98 between M.P. Aydyogik Kendra

Vikas Nigam (R) Ltd. Raipur including State of Madhya Pradesh and
M/s Radius Water Ltd. (F. No. 205/147/99 - ITA-II)

iv) 2 X 750 KW Mini Hydel Power Plant at 2nd Mile on Ongole
Branch Canal in Darsi Village, Krakasham Distt., Andhra Pradesh of
M/s SKJ Power Projects Limited, Plot No. 14, Krishna Nagar Colony,
Pickel, Secunderabad-500009. (F. No 205/154/99 - ITA-II)



(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 11209

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The applicants.
2. All CCsIT and DGsIT
3. C & AG of India
4. Joint Secretary and Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secretary (Admn.), Deptt. of Revenue, New Delhi.
6. DIT (RSP&PR) (Bulletin Section), New Delhi.
7. Ministry of Power, New Delhi
8. M.P. Aayogik Kendra Vikas Nigam(R) Ltd.
9. Ministry of Power, New Delhi



(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India.

भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3१।११ में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी, 2000

अधिसूचना

क्रम संख्या साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड० के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10१23-छ१ के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए नीचे पैरा 3 में उल्लिखित उद्यमों/औद्योगिक उपक्रमों को अनुमोदित करती है।

2० यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि:-

१।११ उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड० के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10१23-छ१ के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा;

१।११ केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि उद्यम/औद्योगिक उपक्रम:-

- १क१ अवसरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है; अथवा
- १ख१ खाता बहियों का रख रखाव नहीं करता है तथा आयकर नियमावली 1962 के नियम 2ड० के उप नियम १7१ द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा नहीं करता है,
- १ग१ आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड० के उपनियम १7१ द्वारा यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

3. अनुमोदित उद्यम/औद्योगिक उपक्रम हैं:-

§ 11§ मैसर्स एच वी एल कोगनरेशन लिमिटेड, 3 बी शेक्सपियर सरणी कलकत्ता-700071 की हल्दिद्या, पश्चिम बंगाल स्थित 116 मेगावाट कम्पाइण्ड लाइकिल कोगनरेशन पावर प्लाण्ट । § फा0सं0 205/143/99-आ0क0नि


§ 11§ मैसर्स नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 एन एच वी सी आफिस कम्प्लेक्स, सेक्टर-33 बरीदाबाद-121003 की 3x20 मेगावाट रजित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तिक्रिम तथा 3x130 मेगावाट दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू व कश्मीर ।

§ फा0सं0 205/49/98-आयकर नि0-11§

§ 11§ मध्य प्रदेश राज्य और मैसर्स रेडियस वाटर लि0 सहित मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम § आर§ लि0, रायपुर के बीच दिनांक 5.10.98 के करार केतहत मैसर्स रेडियस वाटर लि0, 57-58, वर्धनन नगर, ग्रेट ईस्टर्न रोड राजनन्दगांव -491441 द्वारा बी ओ ओ टी के आधार पर 30 एम एल डी बोराई इंडिस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का विकास, निर्माण आरंभ प्रचालन तथा अनुरक्षण ।

§ फा0सं0 205/154/99-आयकर नि0-11§

§ 11§ मैसर्स एस के जे पावर प्रोजेक्ट्स लि0, प्लॉट सं0 14, कृष्णा नगर कैलौनी पिक्केट तिकन्दराबाद-500009 की दरसी गांव ब्रह्म जिला, आंध्र प्रदेश में आंगोल ब्राच केनाल पर दूसरी माइल पर 2x750 के डब्ल्यू मिनी हाइड्रिल पावर प्लांट § फा0सं0 205/154/99-आयकर नि0-11§


§ कमलेश सी0 वाष्पेय§
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 11209

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नई दिल्ली ।